

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी 31 मई से 6 जून, 2020 तक नैशनल एक्सेसएबिलिटी वीक मना रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 जून, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 6 जून तक, नैशनल एक्सेसएबिलिटी वीक (National AccessAbility Week) मना रही है। नैशनल एक्सेसएबिलिटी वीक में विकलांग कॅनेडा निवासियों के बहुमूल्य योगदानों का जश्न मनाया जाता है। साथ ही, यह सुलभता और सम्मिलित होने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए काम करने वाले, व्यक्तियों, समुदायों और कार्यस्थलों को मान्यता देता है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और इसकी [एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी \(Accessibility Advisory Committee\)](#) यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि हर उम्र और योग्यताओं वाले लोगों को, ब्रैम्पटन में रहने, काम करने, खेलने, घूमने और निवेश करने के समान अवसर मिलें। एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी (Accessibility Advisory Committee), विकलांग लोगों को एक फोरम प्रदान करती है, जहां वे अपने मुद्दे और चिंताएं प्रकट कर सकते हैं। यह सिटी के प्रोग्रामों, नीतियों और पद्धतियों संबंधी मामलों पर ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) को सलाह भी देती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है।

कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान, सिटी, सीनियर्स और सोशल स्पॉर्ट टास्क फोर्सिज (Social Support Task Forces) के द्वारा विकलांग निवासियों को लगातार सहयोग कर रही है। इस सहयोग में ग्रासरी खरीदारी, भोजन तक पहुंच और वैकल्पिक जानकारी फॉर्मेट प्रदान करना शामिल है। सुलभता स्रोतों के लिए और सिटी की किसी भी प्रकाशित या ऑनलाइन सामग्री को [वैकल्पिक फॉर्मैट्स \(alternate formats\)](#) में प्राप्त करने के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

रिक हैन्सन फाउंडेशन एक्सेसिबिलिटी सर्टीफिकेशन रेटिंग

मार्च में, सिटी ने ऐलान किया था कि ब्रैम्पटन को ओनटैरियो की उन दस म्युनिसिपल्टीज में से एक के तौर पर चुना गया है, जहां लोकल संगठन सम्मानार्थ रिक हैन्सन फाउंडेशन एक्सेसिबिलिटी सर्टीफिकेशन (आर.एच.एफ.ए.सी.) (Rick Hansen Foundation Accessibility Certification) (RHAFAC) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रोग्राम है, जो रेटिंग देता है कि विकलांगों के लिए बिल्डिंग्स कितनी सुलभ हैं।

ब्रैम्पटन में गैर-लाभ, सार्वजनिक और निजी संगठनों को निशुल्क आर.एच.एफ.ए.सी. (RHAFAC) रेटिंग का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है, ताकि वे अपनी बिल्डिंग के सुलभता स्तर को बेहतर ढंग से समझ पाएं और सुधार करने के तरीकों की पहचान कर सकें। काफी उच्च रेटिंग प्राप्त करने वाली बिल्डिंग्स, रिक हैन्सन फाउंडेशन एक्सेसिबिलिटी सर्टिफाइड (Rick Hansen Foundation Accessibility Certified) अथवा एक्सेसिबिलिटी सर्टिफाइड गोल्ड (Accessibility Certified Gold) बनेंगी।

नए सम्मानार्थ आर.एच.एफ.ए.सी. प्रोग्राम की फंडिंग, रिक हैन्सन फाउंडेशन की साझेदारी में ओन्टारियो सरकार (Government of Ontario) द्वारा की जाती है। इसका लक्ष्य समुदायों को अधिक सुलभ बनाना है। ब्रैम्पटन का चयन, इसकी आबादी और भौगोलिक विविधता के लिए किया गया था। ब्रैम्पटन में लगभग 25 स्थान, आर.एच.एफ.ए.सी. की रेटिंग के लिए योग्य होंगे। संगठनों के लिए www.rickhansen.com/freerating पर आवेदन करना आवश्यक है।

आर.एच.एफ.ए.सी. प्रोग्राम के बारे में और जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स

एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स (Accessibility Awards) एक नागरिक (सिविक) पहचान प्रोग्राम है, जो ब्रैम्पटन में उन व्यक्तियों, कारोबारियों और संगठनों को मान्यता देता है, जो विकलांग लोगों की सुलभता और उन्हें सम्मिलित करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

2020 के एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स के लिए नामांकन, सितम्बर में शुरू होंगे। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी और एक ऑनलाइन नामांकन फार्म के लिए, पतझड़ में सिटी की वेबसाइट देखें। 2019 के अवॉर्ड विजेताओं को [यहां \(here\)](#) देखा जा सकता है।

अवॉर्ड्स, दिसम्बर में ब्रैम्पटन सिटी हॉल (Brampton City Hall) में दिए जाएंगे।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है। सिटी, विकलांगों के लिए बाधाएं दूर करने और हमारे विविध समुदाय में सुलभता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सभी ब्रैम्पटन निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे नैशनल एक्सेसिबिलिटी वीक मनाने में हमारे साथ जुड़ें और हमारे देश में उन लोगों के प्रयासों का जश्न मनाएं, जो ब्रैम्पटन और कैंनेडा को सभी के लिए सुलभ और सम्मिलित बनाने के लिए काम कर रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और रीजन ऑफ पील की एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर होने के तौर पर, मुझे गर्व है कि हमारे मेम्बर, ब्रैम्पटन को हर उम्र और योग्यताओं वाले लोगों के लिए सुलभ और सम्मिलित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस नैशनल एक्सेसिबिलिटी वीक के दौरान, मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि वे हमारे विकलांग साथी कैंनेडा निवासियों के बहुमूल्य योगदानों का जश्न मनाएं और ब्रैम्पटन में तथा पूरे देश में, लोगों, समुदायों और कार्यस्थलों को मान्यता दें। आइए सुलभता और सम्मिलित होने में बाधाओं को दूर करने के लिए काम करने वालों को मान्यता दें।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; मेम्बर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी; मेम्बर, रीजन ऑफ पील एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी

“सिटी में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ब्रैम्पटन में हर उम्र और योग्यताओं वाले लोगों को समान अवसर मिल रहे हैं। साथ ही, हम सभी के लिए सम्मिलित और लचकीले स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं पूरे संगठन के स्टाफ द्वारा किए जाने वाले काम के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, जो वे हमारी सेवाओं, प्रोग्रामों और फैसिलिटीज को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए करते हैं। मैं इस नैशनल एक्सेसएबिलिटी वीक को मनाने में उनके साथ जुड़ रहा हूँ।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca